

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1971/साध 19, 1892

No. 26] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1971/MAGHA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February 1971

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely:—

- 1 These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 1971
- 2 In the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, in rule 19 in sub-rule (1), for the words "after the expiry of one year from the date of issue of a certificate", the words "at any time, before or after the period of its non-encashability" shall be substituted

[No F 7(13)-NS/70.]

B MAITHREYAN, Jt Secy

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी 1971

सां. कां. नि० 189.—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 में और भागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थात् :—

- (1) ये नियम डाकघर बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।
- (2) डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 के नियम 19 के, उपनियम (1) में, “प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “इसकी अनकदीकरणीयता की अवधि के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० एफ० 7(13)एन० एस०/70]

बी० मैन्नेयन, संयुक्त सचिव।

ERRATA

In the Notification No. 76/F. No. 15/4/69-Cus-I, dated the 12th August 1970 in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance), published as G.S.R. 1177 in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) under Issue No. 148 of the 12th August 1970, the following corrections are to be made:—

- (i) In line 6 from upward of the body of the notification at page No. 677 for the word “specific” read “specified”.
- (ii) In the Schedule at page 678 in col. 3 against S. No. 2 for the words “excepting” and “acetate” read “excepting” and “acetate”.
- (iii) At the end of the Hindi version of the said notification line for “सं० 7” read “सं० 76”.

In the Notification No. 78/F. No. 21/5/70-Cus. I, dated the 14th August 1970 of the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance), published as G.S.R. 1178 in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) under Issue No. 149 of the 14th August 1970, the following corrections are to be made:—

- (i) In the last line of the notification (English version) insert “is” between the words ‘as’ and ‘in’. In the same line after the word excess for “o” read “of”.